

Part A Introduction

Program:	Year: BCOM SECOND YEAR	Session: 2026-27
Course Code		
Course Title	Corporate Accounting	
Course Type	MAJOR/C-4	
Pre-requisite (if any)	NO	
Course Learning outcomes (CLO)	At the end of the course, Students will be able to: 1. Understand the regulatory environment in which companies are formed and operate. 2. Explain the accounting and reporting requirements as per the Companies Act and Accounting Standards. 3. Prepare financial statements (Profit & Loss Account, Balance Sheet, etc.). 4. Analyze the justification, merits, and demerits of issuing bonus shares by a company. 5. Evaluate the impact of internal reconstruction and mergers on the company's financial position. 6. Prepare and e-file annual reports and consolidated balance sheets of holding and subsidiary companies.	
Expected Job Role / career opportunities	Accounts Executive, Financial Analyst, Internal Auditor, Finance Manager, Tax Consultant.	
Credit Value	06	

Part B- Content of the Course

Total No. of Hours/ Lectures - 90 hours/lectures		
Module	Topics	No. of Hours
I	Bhartiya Gyan Parampara (IKS) & Economic Thought – Relevance of Bhartiya Perspective in Modern Corporate Accounting: Ethical Investment, Transparency, and Social Responsibility. Issue and Procedure of IPO, Right issue, bonus shares and buy back of shares, Redemption of Preference Shares, Issue and Redemption of Debentures, Corporate Social Responsibility (CSR). Activity: • Case Study: 'From Kautilya to Corporate – Tradition of Ethical Investment'. • Analyze debt and equity structure of a listed company. • Field Assignment: Analyze CSR Report of an Indian Company (e.g., Infosys Foundation, Tata Trusts).	18

Amish

II	Financial Statements of Companies Preparation of financial statements of corporate entities, including One Person Company, excluding calculation of managerial remuneration, as per Division I and II of Schedule III of the Companies Act 2013. Related Parties as per AS-18, Preparation of Statement of Profit and Loss, Balance Sheet, Statement of Equity and Cashflow Statement, manually and using appropriate software. Interpreting the ratios calculated as per Schodde III of the Companies Act 2013 [with reference to Relevant Accounting Standards (AS and Ind AS) and the relevant provisions of The Companies Act, 2013, as applicable,). Calculation of EPS as per AS 20. Activity: 1. Study financial statement formats on MCA portal. 2. Case Study: Analysis of major corporate incorporations in India.	18
III	Valuation of Intangibles Valuation of intangible Assets, Value Added Statement, Economic Value Added, Market Value Added, and Shareholder Value Added. Activity: 1. Prepare a spreadsheet for goodwill valuation by various methods. 2. Prepare a PowerPoint explaining concepts of goodwill. 3. IKS view: Goodwill as Social Responsibility. Discuss	18
IV	Amalgamation of Companies and Internal Reconstruction (a) Accounting for Amalgamation of Companies (excluding inter-company holdings) applying AS 14/Ind AS 103. (b) Accounting for Different forms of Internal reconstruction (excluding drafting of Internal reconstruction scheme). Activity: 1. Group Activity: Prepare consolidated balance sheet. 2. Identify subsidiaries in Indian groups (Reliance, Adani).	18
V	Corporate Financial Reporting Meaning, need, and objectives, Constituents of the Annual Report and how it is different from financial statements, Contents of the report of the Board of Directors: XBRL. Reporting. Dahing of Notes to Accounts. Segment Reporting as per AS-17, Sustainability Reporting, Triple Bottom Line Reporting, CSR Reporting. Activity : 1. Case Study on HDFC–HDFC Bank Merger. 2. Role Play - Students take on the role of a board of directors to decide how to restructure a loss-making company. 3. Prepare a presentation on Ind AS 14. 4. Prepare the balance sheet post internal reconstruction.	18

Amish

Part C-Learning Resources

Text Books, Reference Books, Other resources

Suggested Readings:

Reading material for ICS

1. Mohammed Hanif & Amitabha Mukherjee, Corporate Accounting, McGraw-Hill Education India, New Delhi.
2. R.L.Gupta & Radhaswami, Corporate Accounting, Sultan chand and sons, New Delhi.
3. डॉ. एस.के. सिंह, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग (निगमित लेखांकन) एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स।
4. डी.के. गोयल और शैली गोयल, निगमीय लेखांकन, ए.पी.सी. बुक्स।
5. Dr. Rakesh Dhand, Dr. J.Talreja, Dr. Manish.Jain, Dr. Mahendra Jain, निगमीय लेखांकन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
6. S. N. Maheshwari & S. K. Maheshwari, Corporate Accounting, Vikas Publication House
7. डॉ.एस.एम. शुक्ल, निगमीय लेखांकन, साहित्य भवन आगरा
8. डॉ.बी.के. मेहता, निगमीय लेखांकन, एस.पी.बी.डी.आगरा
9. Dr. Shailendra K. Bharal, Dr. Jitendra Ahirrao, Corporate Accounting, Agra Book International Agra
10. Mariyappa Anil, Rajes, Corporate Accounting, Himalaya Publishing House
11. M.P. Gupta & B.M. Agarwal, Corporate Accounting, Sultan Chand & Sons
12. Dr Mahesh Agrawal, Corporate Accounting, Ramprasad and sons Bhopal

Suggested equivalent online courses:

1. <https://www.icsi.edu/media/webmodules/Academics/CAFM1001202455454.pdf>
2. <https://www.ignouhelpcenter.com/ignou-textbooks/bcoc-137>
3. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec24_mg11/preview
4. https://icmai.in/upload/Students/Syllabus2022/Inter_Std_Mtrl/P10_160824.pdf

Part D: Evaluation and Assessment

Note :

70% numerical questions should be asked.

Maximum Marks -

100

Continuous Internal Evaluation (CIE)


Total Marks-

30

University Exam

Total Marks-

70



(MR. PAVAN MISHRA)

(PROF. PAVAN MISHRA)

Chairman

Central Board of Studies (Commerce)

Department of Higher Education Govt. of M.P.



भाग अ - परिचय

कार्यक्रम	कक्षा : बीकॉम द्वितीय वर्ष	सत्र : 2026-27
पाठ्यक्रम का कोड		
पाठ्यक्रम का शीर्षक	निगमीय लेखांकन	
पाठ्यक्रम का प्रकार	मेजर / C-4	
पूर्वापेक्षा (यदि कोई हो)	नहीं	
पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियां (कोर्स लर्निंग आउटकम) (CLO)	पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक समापन के बाद विद्यार्थी सक्षम होंगे: यह समझने में कि कंपनियाँ किस नियामक ढाँचे में गठित और संचालित होती हैं। कंपनी अधिनियम और लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को समझने में। वित्तीय विवरण (लाभ-हानि खाता, तुलन पत्र आदि) तैयार करने में। बोनस शेयर जारी करने के औचित्य, लाभ और हानि का विश्लेषण करने में। आंतरिक पुनर्गठन और विलय के प्रभाव का मूल्यांकन करने में। सूत्रधारी और सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और समेकित तुलन पत्र तैयार करने एवं ई-फाइल करने में पाएंगे।	
अपेक्षित रोज़गार/ करियर के अवसर	लेखा कार्यकारी, वित्तीय विश्लेषक, आंतरिक लेखा परीक्षक, वित्त प्रबंधक, कर सलाहकार।	
क्रेडिट मान	6	

भाग ब- पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

कुल घंटे / व्याख्यान (Total Hours/Lectures): 90

इकाई	विषय	व्याख्यान की संख्या /घंटे
I	भारतीय ज्ञान परंपरा एवं आर्थिक चिंतन: आधुनिक निगमीय लेखांकन में भारतीय दृष्टिकोण की प्रासंगिकता – नैतिक निवेश, पारदर्शिता, और सामाजिक उत्तरदायित्व। IPO जारी करने की प्रक्रिया, अधिकार अंश, बोनस अंश, अंशों की पुनर्खरीद, पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन, ऋणपत्रों का निर्गमन और विमोचन, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधि : • Case Study: “कौटिल्य से कॉर्पोरेट तक — नैतिक निवेश की परंपरा” पर समूह चर्चा। • किसी सूचीबद्ध कंपनी की ऋण और अंश पूंजी संरचना का विश्लेषण करें।	18

Annis

	• Field Assignment: "सर्वे भवन्तु सुखिनः" के आधार पर किसी भारतीय कंपनी की CSR Report (उदा. Infosys Foundation, Tata Trusts) का विश्लेषण।	
II	कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग I और II के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना को छोड़कर, एकल-व्यक्ति कंपनी सहित कॉर्पोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरण तैयार करना। AS-18 के अनुसार संबंधित पक्ष, लाभ-हानि विवरण, बैलेंस शीट, इक्विटी विवरण और नकदी प्रवाह विवरण मैनुअल रूप से और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तैयार करना। कंपनी अधिनियम 2013 के Schodde III के अनुसार गणना किए गए अनुपातों की व्याख्या करना। प्रासंगिक लेखा मानकों (AS और Ind AS) और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, जहाँ लागू हो, के संदर्भ में। AS 20 के अनुसार EPS की गणना। गतिविधि : • MCA पोर्टल पर जाकर वित्तीय विवरण के प्रारूप का अध्ययन करें। • केस स्टडी: भारत में प्रमुख समामेलित कंपनियों की स्थापना का विश्लेषण।	18
III	मूर्त संपत्तियों का मूल्यांकन अमूर्त संपत्तियों का मूल्यांकन, मूल्य वर्धित विवरण, आर्थिक मूल्य वर्धित, बाजार मूल्य वर्धित, और शेयरधारक मूल्य वर्धित। गतिविधि : • विभिन्न विधियों के अनुसार ख्याति की गणना के लिए स्प्रेडशीट बनाएं। • ख्याति की अवधारणाओं को समझाने वाला एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं। • भारतीय ज्ञान परंपरा दृष्टिकोण से ख्याति को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझें।	18
IV	कंपनियों का विलयन और आंतरिक पुनर्निर्माण (क) कंपनियों के विलयन (अंतर-कंपनी होल्डिंग्स को छोड़कर) के लिए लेखांकन, AS 14/Ind AS 103 लागू करते हुए। (ख) आंतरिक पुनर्निर्माण के विभिन्न रूपों के लिए लेखांकन (आंतरिक पुनर्निर्माण योजना के प्रारूपण को छोड़कर)। गतिविधि : • समूह में समेकित चिट्ठा तैयार करें। • भारतीय समूहों (Reliance, Adani) की वार्षिक रिपोर्ट से सहायक कंपनियों के संबंध पहचानें।	18
V	कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य, वार्षिक रिपोर्ट के घटक और यह वित्तीय विवरणों से कैसे भिन्न है, निदेशक मंडल की रिपोर्ट की विषय-वस्तु: एक्सबीआरएल। रिपोर्टिंग। लेखा नोट्स का प्रकाशन। एएस-17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग, स्थिरता रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, सीएसआर रिपोर्टिंग। गतिविधि : • Role Play - हाल ही के विलय (HDFC-HDFC बैंक) पर केस स्टडी तैयार करें। • छात्र निदेशक मंडल की भूमिका निभाकर यह तय करें कि घाटे में चल रही कंपनी का पुनर्गठन कैसे किया जाए। • भारतीय लेखांकन मानक 14 पर एक प्रस्तुतीकरण तैयार कीजिए। • कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण के बाद बैलेंस शीट तैयार करें।	18

book to U.S
पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें, अन्य संसाधन

1. Mohammed Hanif & Amitabha Mukherjee, Corporate Accounting, McGraw-Hill Education India, New Delhi.
2. R.L.Gupta & Radhaswami, Corporate Accounting, Sultan chand and sons, New Delhi.
3. डॉ. एस.के. सिंह, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग (निगमित लेखांकन) एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स।
4. डी.के. गोयल और शैली गोयल, निगमीय लेखांकन, ए.पी.सी. बुक्स।
5. Dr. Rakesh Dhand, Dr. J.Talreja, Dr. Manish.Jain, Dr. Mahendra Jain, निगमीय लेखांकन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
6. S. N. Maheshwari & S. K. Maheshwari, Corporate Accounting, Vikas Publication House
7. डॉ.एस.एम. शुक्ल निगमीय लेखांकन साहित्य भवन आगरा
8. डॉ.बी.के. मेहता निगमीय लेखांकन एस.पी.बी.डी.आगरा
9. Dr. Shailendra K. Bharal, Dr. Jitendra Ahirrao, Corporate Accounting, Agra Book International Agra
10. Mariyappa Anil, Rajes, Corporate Accounting, Himalaya Publishing House
11. 10.M.P. Gupta & B.M. Agarwal, Corporate Accounting, Sultan Chand & Sons
12. Dr Mahesh Agrawal, Corporate Accounting, Ramprasad and sons Bhopal

Suggested equivalent online courses:

1. <https://www.icsi.edu/media/webmodules/Academics/CAFM1001202455454.pdf>
2. <https://www.ignouhelpcenter.com/ignou-textbooks/bcoc-137>
3. https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec24_mg11/preview
4. https://icmai.in/upload/Students/Syllabus2022/Inter Stdy Mtrl/P10_160824.pdf

भाग-द : मूल्यांकन एवं आकलन


नोट:

प्रश्न पत्र में 70% प्रश्न संख्यात्मक (Numerical) होने चाहिए।

अधिकतम अंक - 100

सतत समग्र मूल्यांकन (CCE) कुल अंक 30

विश्वविद्यालय परीक्षा कुल अंक - 70


(DR. PAVAN MISHRA)
(PROF. PAVAN MISHRA)
Chairman

Central Board of Studies (Commerce)
Department of Higher Education Govt. of M.P.

